# SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035 Corporate Office: 7<sup>th</sup> Floor, Office Tower, Ambience Mall, Gurugram, Haryana-122002 E-mail: <a href="mailto:legal.secretarial@sainikmining.com">legal.secretarial@sainikmining.com</a> website: <a href="www.sainikfinance.com">www.sainikfinance.com</a> Tel: 0124-2719000 Fax: 0124-2719100

CIN: L26912DL1991PLC045449

Dated 5<sup>th</sup> September, 2020

To,
The Manager (Listing) **BSE Limited**Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001.

Sub.: Sending of Notice of 28<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) and Annual Report 2019-20 to the shareholders of the Company

Ref.:- Sainik Finance & Industries Limited ("the Company")

This is to inform you that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, Notice for 28<sup>th</sup> Annual General Meeting of Company scheduled to be held on Wednesday 30<sup>th</sup> September, 2020 at 11:15 AM through Video Conferencing (VC) and Other Audio Visual Mean (OAVM) and Annual Report of the Company for the financial year 2019-20 have been sent electronically to the members / shareholders at their emails on 4<sup>th</sup> September, 2020.

Further we are enclosing herewith copy of newspapers cutting pertaining to publication of notice of AGM in Newspapers i.e. Financial Express (English newspaper) and Haribhoomi (Hindi newspaper) dated 5<sup>th</sup> September, 2020 and confirmation regarding to sending of the above said Notice and Annual Report to the shareholders/ members.

The Notice of 28<sup>th</sup> Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2019-20 have been uploaded on the website of the Company as per following details:

http://www.sainikfinance.com/2019-20/SFIL%2028th%20Annual%20Report%202019-20.pdf

This is for your information and record.

Thanking You,

For Sainik Finance & Industries Limited

**Jagdish Chandra**Chief Financial Officer

Date: 5<sup>th</sup> September, 2020

Place: New Delhi

# FINANCIAL EXPRESS

# nform your opinion detailed analysis

## SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035 E-mail: legal.secretarial@sainikmining.com

Website: www.sainikfinance.com Tel: 0124-2719000 Fax: 0124-2719185 CIN: L26912DL1991PLC045449 NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE ETC.

Notice is hereby given that:

- The 28th Annual General Meeting of the Company (AGM\*) will be convened on Wednesday, 30th September, 2020 at 11:15 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8" April 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020 (79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue. presence of the Members at a common venue.
- In terms of MCA Circular/s and SEBI Circular the Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2020 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2020 ("Annual Report") has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Wednesday, 23rd September, 2020 may-cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL"). All the members are informed that:
  - the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM, will be transacted through voting by electronic means:
  - the remote e-Voting shall commence on Sunday, 27th September, 2020 at 9:00
  - the remote e-Voting shall end on Tuesday, 29th September, 2020 at 5:00 p.m
  - the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the AGM, is Wednesday 23rd September, 2020
  - any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or legal.secretarial@sainikminjng.com or pk.mittal@indusinvest.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
  - Members may note that: (a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; (b) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the AGM; (c) the Members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the AGM; and (d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the AGM;
  - the Notice of the AGM and the Annual Report are available on the website o the Company at www.sainikfinance.com and the website of BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of the AGM is also available on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com and
  - of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com and in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. or contact Mr Amit Vishal, Senior Manager or Ms Pallavi Mhatre, Manager National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A'. Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos. +91-22-2499 4360 or +91-99202 64780 or +91 22 2499 4545, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address'-legal secretarial@sainikmining.com address legal.secretarial@sainikmining.com
  - those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self-attested scanned copy of the PAN Card; and self-attested scanned copy of any document (suchas AADHAR Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company, by email to legal secretarial@sainikmining.com Members holding shares in demat form can update their email address with their Denository Participant their Depository Participant.
- The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 23rd September, 2020 to Wednesday 30th September, 2020 (both days inclusive) for annual closing for purpose of annual general meeting of the Company.

Date: 4th September, 2020

Place: New Delhi

For Sainik Finance & Industries Limited

Rudra Sen Sindhu

Director

red at the aforesaid AGM

r / polling paper shall be made available at the AGM.

AGM of the Company may be transacted through voting by

Saturday, September 26, 2020 (9'A.M IST), day, September 29, 2020 (5 P.M IST),

Issued Shares of the Company and becomes member of the ng shares as on the cut-off date, may obtain the log-in ID and rson mentioned in point no.(VIII)

eyond, September 29,2020 (5 PM,IST)

per polling paper shall be made available at the AGM of the

aGM who have not already casted their vote by remote

even after exercising his right to vote through remote e-voting the AGM through ballot paper and the register of members or in the register of beneficial owners the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of

along with the Annual Report, attendance slip, Proxy form is http://www.basantindia.in and CDSL's website i.e.

g e-voting, you may refer the frequently asked questions r evotingindia.com, under help section or right an email to daa@gmail.com. The help desk can also be contacted on vances connected with the facility for voting by electronics er CDSL, A wing, 25th Floor, Marathon Fulurex, Mafatlal (East), Mumbai-400013.

For Basant India Limited

Sudhanshu Sekhar Nayak Company Secretary and Compliance officer

# INDUSTRIES LIMITED

e: 71/1, Siraspur, Delhi-110042

ID: cs@kumarfood.com / Web: www.kumarfood.com

CIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND D ENDED 30.06.2020 Rs In Lakh (except EPS)

				KS. III Lakii (except Li o)					
	Quarter Ending June, 30, 2020 Un Audited	Quarter Ending June 30, 2019 Un Audited	Quarter Ending March 31, 2019 Audited	Year ended March 31, 2020 Audited	Year ended March 31, 2020 Audited				
	7557.65	8087.50	6298.48	5329.29	28437.10				
	6.76	7.21	(77.74)	(352.53)	34.48				
Her	6.76	7.21	(77.74)	(352.53)	34.48				
•	5.85	7.21	39.93	(324.96)	(180.42)				
tax)	7.05	7.21	39.93	(324.96)	(165.45)				
	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00				
as									
each)	0.20 0.20	0.24 0.24	1.33 1.33	-10.83 -10.83	-6.01 -6.01				

tutory auditors and approved by the audit committee and taken on eting held today. The figures between audited figures in respect of s up to the first quarter of the current financial year.

ed review by the Statutory Auditor in terms of the Regulation 52 of Requirements) Regulations, 2015 has been placed before Board of

gle business segment as per AS 18

nd appealed against are not provided in the books. As per return filed a payable by the Company have been deducted from the amount dues

liquidator by the Hon' able High Court of Delhi to whom an advance no provision for doubtful debts are made in the books

e Director and CFO in respect of above results in terms of Regulation sure Requirements) Regulations, 2015 has been placed before Board

been regrouped/ rearranged wherever necessary.

For and on behalf of Kumar Food Industries Limited Dharminder Joshi Director DIN 05186749



the Indian Intelligent

# कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश

# डॉक्टर समेत तीन लोग चढ़े हत्थे

हरिभूमि न्यूज 🕪 नई दिल्ली

दक्षिणी जिले की हौज खास पुलिस ने कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले रैकेंट का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में एक डॉक्टर और उसके दो साथी को गिरफ़्तार किया है। गिरफ्तार डॉक्टर का नाम कुश बिहारी पारासर है। डॉक्टर का दावा है कि उसने रूस से मेडिकल की पढ़ाई की है। गिरफ्तार अन्य दो आरोपियों के नाम अमित सिंह व सोनू है। ये लोग अभी तक चार नामी टेस्टिंग लैब की 75 नकली कोविड-19 रिपोर्ट बना लोगों से धोखा कर चुके थे। एक रिपोर्ट के एवज में 2400 रुपये वसूले जाते थे।

साउथ दिल्ली के डीसीपी अंतुल कुमार ठाकुर ने बताया है कि 30 अगस्त को दक्षिणी दिल्ली में नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध करवाने का बिजनेस करने वाले एक व्यक्ति ने दो नर्सिंग स्टाफ का कोविड टेस्ट डॉक्टर कुश बिहारी पारासर से करने को कहा था। इसके बदले में डॉक्टर कुश ने पैसे ले लिए और सैंपल भी कलेक्ट कर लिया। लेकिन ये सैंपल लैब में भेजने की जगह डॉक्टर ने अपने सहयोगी अमित सिंह और सोन् की मदद से कोरोना की नकली नेगेटिव रिपोर्टे बनाकर उस व्यक्ति को

दबंगों ने पुलिस टीम पर

किया हमला, नाबालिग

नई दिल्ली। मेरठ से दोस्तों से

मिलने आये दो कार में सवार

दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला

ने पुलिस की सर्विस रिवाल्वर

कर दिया। इतना ही नहीं आरोपियों

छीनने की कोशिश भी की। उधर,

मामले की सूचना मिलते ही थाने

गया। उन्होंने दबंगों पर काबू पाया।

का अन्य स्टॉफ मौके पर पहुंच

पकड़े गए आरोपियों में अंकुश

बालियान, और विशाल तालियां

और एक नाबालिग है। वारदात के वक्त आरोपी नशे में थे। सिविल

लाइन थाना पुलिस ने आरोपियों

बाधा डालने और पुलिस कर्मियों

के साथ मारपीट की धाराओं में

मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस

की जांच कर रही है।

आरोपियों से पूछताछ कर मामले

चचेरी बहन के प्रेम

विवाह से नाराज भाई

ने की फायरिंग, अरेस्ट

में एक प्रेमी जोड़े ने परिवार के

खिलाफ जाकर शादी कर ली।

इस बात से उसके घरवाले इतने नाराज हुये कि लड़के और

उसके परिवार को सबक सिखाने

की ठान ली गई। लड़की के चचेरे भाई ने लड़के के पिता को इराने

गनीमत रही कि गोली किसी को

कर लिया है। एक रिवॉल्वर और जिंढा कारतस भी जब्त हये हैं।

आरोपी का नाम आदिल बताया

गया है। पुलिस उसके पिता से भी

मीणा ने बताया कि तीन सितम्बर

को देर रात करीब पौने दो बजे गली नंबर-7. जोगा बाई

एक्सटेंशन में फायरिंग की

पहुंची, जहां शिकायतकर्ता

सूचना मिली। पुलिस मौके पर

इरफान मिला। उसने बताया कि वह ढकान पर मौजढ थे। तीन

लोग उसकी दुकान पर सिगरेट

करीब डेढ़ बजे आदिल कार से वहां पहुंचा, जहां उसने गाली-गलौच शुरू कर दी। दोनों के बीच

बहस हो गई। इसके बाढ आदिल वहां से चला गया। कुछ

देर बाद वह आया और जमींन की तरफ निशाना साध एक

राउंड फायर कर दिया। इसके बाद वह फरार हो गया। पुलिस

ने पीड़ित के बयान पर ऑर्म्स

एक्ट और अन्य धारा के तहत

अरेस्ट कर लिया। उसके पिता

द्वारा दी गई लाइसेंसी रिवॉल्वर

और जिंदा कारतूस भी जब्त कर

ली गई। आदिल ने खुलासा किया

शाकिर ने उसकी चचेरी बहुन से

परिवार के खिलाफ जाकर शार्द

कि इरफान के बेटे मोहम्मद

की थी। इससे परिवार काफी

जान लेने का नहीं था। महज

थी। आदिल का कोई पुराना

आपराधिक रिकॉर्ड नहीं

मिला है।

डराने के लिये फायरिंग की गई

खफा था। हालांकि, उसका यह

भी कहना है कि इरादा किसी की

मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच के बौरान पुलिस ने आदिल को

खरीदने के लिये खड़े हुये थे। रात

पूछताछ कर रही है। साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक डीसीपी आरपी

नहीं लगी। पलिस ने मकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार

के लिए फायरिंग कर दी।

के खिलाफ सरकारी काम में

समेत चार दबोचे

नई दिल्ली। शाहबाद डेरी थाना इलाके में बहन के प्रेमी को एक युवक ने अपने दोस्त के साथ

मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए महज पांच घंटे के

अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के नॉम अरमान (22) और

करण सिंह (28) है। दोनों आरोपी बवाना इलाके में एक नेल पॉलिश की फैक्ट्री में काम करते

है। पूछताछ के दौरान आरोपी अरमान ने पुलिस को बताया कि मृतक धर्मेंद्र उर्फ राज (26) अपने

ढोस्तों के बीच उसकी बहन को लेकर अजीब अजीब बातें बोलता था. जोकि उसको प्रसंद नहीं

Folio

New Delhi.

September 4, 2020.

0018217 KHODIDAS S PATEL

PRADHAN

RAHUL RAMCHANDRA



- चार नामी टेस्टिंग लैब की 75 नकली कोविड-19 रिपोर्ट बनाकर दे चुके थे लोगों को धोखा
- एक रिपोर्ट के एवज में 2400 रुपये वसूलते थे आरोपी

व्हाट्सएप पर भेज दी। रिपोर्ट कंप्यूटर पर तैयार करने के दौरान अमित से एक गलती हो गई। उसने एक नर्स के नाम में गड़बड़ी कर दी। इसके बाद पीड़ित नाम ठीक करवाने के लिए खुद ही लैब पहुंच गया जिसकी रिपोर्ट उसे दी गई थी। वहां पता चला कि इस नाम से कोई रिपोर्ट उन्होंने बनाकर नहीं दी है। उसका कोई रिकॉर्ड वहां नहीं मिला। इसके बाद उक्त शख्स ने हौज खास थाने

<u>बहन के प्रेमी को दोस्त के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट, दोनों गिरफ्तार</u>

ठक-ठक गैंग में शामिल ऑटो चालक और

नाबालिग समेत चार दबोचे

एक ऑटो चालक व नाबालिंग समेत चार लोगों को पकड़ा है। इनके पास

से कई मोबाइल फोन और लैपटॉप व बैग बरामद हुये हैं। पुलिस ने इन्हें

गुरुवार को रात करीब 10 बजे बीआरटी रोड के सामने मदनगीर गांव के

पास से इन बदमाशों को दबोचा। डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि

ऑटो में तीन लोग सवार थे। मुखबिर के इशारे पर उन्हें रोकने की कोशिश

की गई थी। लेकिन वह मुड़कर विद्या मंदिर स्कूल की तरफ भागने लगे।

पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। उनके पास से तीन लैपटॉप, पांच

मोबाइल फोन, बैग, लेडीज पर्स आदि सामान बरामद हुआ। गिरफ्तार किये

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported to be lost

misplaced/stolen and the registered shareholders/claimants therefore have requested the Company for issuance of duplicate share certificates in lieu of lost share certificates

Any person(s) who has/have and claim(s) in respect of the aforesaid share

certificates should lodge the claim in writing with us at the above mentioned address within 15 days from the publication of this notice. The Company will no

thereafter be liable to entertain any claim in respect of the said share certificates and shall proceed to issue the duplicate share certificates pursuance to Rule 6

No.

22078

22079

16809

Bharat Rasayan Limited

Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008 CIN: L24119DL1939PLC036264

rs.brl@bharatgroup.co.in Website: www.bha

No. of Distinctive Nos.

For BHARAT RASAYAN LIMITED

(From - To )

3534241-3534340

3007241-3007340

(Nikita Chadha) Company Secretary Memb. No. FCS10121

गये तीन बदमाशों के नाम विजय, कुनाल और सलमान हैं।

Name of the Shareholder | Certificate

of the Companies (Share Capital & Debentures) Rules, 2014.

नई दिल्ली। दक्षिण जिले के स्पेशल स्टाफ ने ठक-ठक गैंग में शामिल

में शिकायत दी। आरोपी डॉक्टर मालवीय नगर में रहता है। वह सीआरएल डायग्नॉस्टिक लैब. मॉडर्न डायग्नॉस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, डॉ पी भसीन पैथलैब प्राइवेट लिमिटेड और प्रोगनोसिस लैबोरेटरीज के नाम से लोगों को फर्जी रिपोर्ट बनाकर देते थे। चूंकि रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्मेंट में होती थी और व्हाट्सएप पर भेजी जाती थी इसलिये आम व्यक्ति असली नकली का फर्क भी सहज महसूस नहीं कर पाता था। इनके पास रिपोर्ट नेगेटिव और पॉजीटिव निर्धारण का कोई मापदंड भी नहीं था। लोगों से जो सैंपल लिये जाते थे वह भी कूड़े में फेंक दिये जाते थे। पुलिस इस काम में इनकी मदद करने वाले अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

# सिर पर पत्थर से हमला कर दोस्त की हत्या

इलाके में थप्पड मारने को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने दोस्त के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस का कहना हैं कि अभी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जांच में पता चला है कि उसका नाम विनोद है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को बिरफ्तार कर लिया है**।** आरोपी का नाम विनोद बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामलें की जांच कर रहीं है। पुलिस अधिकारी ने

बेटे ने ली पिता की जान रणहौला थाना इलाके में कहासूनी के दौरान बेटे ने पिता की हत्या कर दी। मृतक का नाम राकेश चौहान है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, राकेश परिवार के साथ शिव विहार. रणहौला में रहता था। बृहस्पतिवार रात को आरोपी अंकित और राकेश के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान अंकित

ने अपने पिता की हत्या कर दी।

दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगडा हो गया था। इसी दौरान आरोपी ने उसके सिर पर सोते हुए पत्थर से हमला कर दिया। वारदाँत के बाद वह फरार हो गया। पुलिस टीम ने घर भागने की तैयारी कर रहे आरोपी को कश्मीरी गेट बस अड्डा जाते हुए गिरफ्तार कर लिया।

# SKYWEB INFOTECH LIMITED

CIN: L72200DL1985PLC019763 Registered Office: K-20, 2<sup>rd</sup> Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110 024 Corporate Office: Plot No. 2A, First Floor, Sector-126, Noida, Ultar Pradesh-201301 Ph: 0120-6726800 E-mail: info@skwebindic in E-mail: info@skywebindia.in

# NOTICE

Pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, Notice is hereby given hat the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 14" day of September, 2020, inter alia, to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020. The said information may be accessed or the website of the Company at www.skywebindia.in and Stock Exchange website at www.msei.in.

By Order of the Board Skyweb Infotech Limited

Amit Mahajar Date: 04.09.2020 Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

# SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office- 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh

New Delhi – 110035
Corporate Office: 7th Floor, Corporate Office Tower, Ambience
Mall, N.H.48, Grurugram-122002
E-mail: info@sainik.org Website: www.sainikfinance.com CIN:
L26912DL1991PLC045449

Telephone No.-011-28315036/0124-2719000 Fax No.-011-28315044/ 0124-2719100 NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING

INFORMATION AND BOOK CLOSURE ETC. Notice is hereby given that: 1. The 28th Annual General Meeting of the Company (AGM₹) will be

value on Wednesday, 30th September, 2020 at 11:15 a.m. through Video Conferencing (₹VC₹)/Other Audio Visual Means (₹OAVM₹) Facility to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circula Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8'₹ April 2020, 13th April 2020 and 5th May, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (₹MCA Circular/s₹) and Circular No. SEBI/ HO/CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020 /79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (₹SEBI Circular₹), with-

out the physical presence of the Members at a common venue. In terms of MCA Circular's and SEBI Circular the Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2020 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2020 (₹Annual Report₹) has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Wednesday, 23rdSeptember 2020 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system (₹remote e-Voting₹) of National Securities Depository Limited (₹NSDL₹). All the members areinformed that the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of

theAGM, will be transacted through voting by electronic means: ) the remote e-Voting shall commence on Sunday, 27th September

2020 at 9:00 a.m. IST; the remote e-Voting shall end on Tuesday, 29th September, 2020 at 5:00 p.m. IST; d) the cut-off date, for determining the eligibility to vote through

remote e-Voting or through the e-Voting system during theAGM is Wednesday 23rdSeptember, 2020 any person, who becomes Member of the Company after sending

the Notice of the AGM by email and holding shares as on the cutoff date i.e. 23rdSeptember, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or legal.secretarial@sainikmining.com or pk.mittal@indusinvest.com. However, if a person is already registered with NSDL for remotee- Voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

Members may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the AGM; c) the Members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the AGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the AGM;

g) the Notice of the AGM and the Annual Report are available on the website of the Company at www.sainikfinance.comand the website of BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of the AGM is also available on the website of NSDL at

h) in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms Pallavi Mhatre, Manager National Securities Depository Ltd., Trade World, "A". Wing, 4thFloor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos. +91-22-2499 4360 or +91-9200 44790 or pred 2 2409 456 for the will also address the gringeness 99202 64780 or+91 22 2499 4545, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address legal.secretarial@sainikmining.com

 those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self-attested scanned copy of the PAN Card; and self-attested scanned copy of any document (suchas AADHAR Card, Driving Licence Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company, by email to legal.secrtarial@sainikmining.com.Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 23rdSeptember, 2020 to Wednesday 30th September, 2020 (both days inclusive) for

संवाद विज्ञा. सं.-13/2021/515363200000/82606 दि. 04.09.20

Date 4<sup>th</sup> September, 2020 Place : New Delhi

# सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, हरियाणा

निम्नाशिक्षित बीएसएनएल कसंचारी हुयूटी से भारिता है, जो आपकी तरफ से लदाचर है। आपको एक चूधना दिनांक 29.06.2019 तामील की गई थीं और अपना बचाय प्रस्तुत करने के लिए अरम्सर तामील किया एवा था।

चोई

बह यूचना वपरोक्त करूंबारी को कमरा ने 19, रीक्टर 8, बीएसएनएल व्यसचंत्र, करनाल 132001 में 15.05.2020 को अमोहस्ताक्षरों के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए प्रेम में प्रकाशित को जा नहीं है. जिसमें विफाल रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही असल में हमुई जाएंगी।

पदनाम

खंबना



था। उसके मना करने पर भी आरोपी नहीं माना। इसके बाद उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर

वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद

कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। डीसीपी (आउटर-

नॉर्थ) गौरव शर्मा ने बताया कि बृहस्पितवार शाम करीब ४:५६ बजे पुलिस को पहलादपुर के पास

एक युवक के शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस

को मृतक के पास से कोई बस्तावेज नहीं मिले. जिससे उसकी शिनाख्त हो सके।

दुरभाष नं. 172-2715090 वैबसाइट:- www.socialjusticehry.gov.in

201400194

ई-मेल sje@hry.nic.in दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां (2020-21)

दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग छात्रों का सशक्तिकरण करने के लिए छात्रवृत्ति योजना दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति चलाई गई है। छात्रवृत्ति योजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है

ब्र स		शामिल पाठ्यक्रम	लक्ष्य	अभिभावकीय वार्षिक आय सीमा (रू.)	छात्रवृत्तियों की दर	कैसे आवेदन करें
1	दिव्यांग छात्रों के लिए प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति	कक्षा 9वीं और 10वीं	509	2.50 লাख	दिवा छात्रों के लिए 500 रू. प्रतिमाह एवं होस्टल के छात्रों के लिए 800 रू. व पुस्तक एवं दिव्यांगता भत्ता 2000 रू. से 400 रू. तक प्रतिवर्ष।	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर (www.scholarships .gov.in) आनलाइन आवेदन करें।
2	दिव्याँग छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	कक्षा 11वीं से मास्टर डिग्री/डिप्लोमा	346	2.50 लाख	विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा, डिग्री/डिप्लोमा के लिए व्यावसायिक पाट्यक्रम आदि में रखरखाव भत्ते की भिन्न-भिन्न देरें हैं। आवासीय छात्रों के लिए 900-1600 रू. प्रतिमाह तथा गैर आवासीय छात्रों के लिए 500-700 रू. प्रतिमाह की दर के साथ-साथ ट्यूशन फीस (अधिकतम सीमा 1.50 लाख रू. प्रतिवर्ष), पुस्तक भत्ता व दिव्यांग भत्ता 2000 से 4000 तक ट्यूशन फीस प्रतिवर्ष।	पोर्टल 16 अगस्त, 2020 नये आवेदन के लिये खुल गया है। ऑनलाइल आवेदन पंजीकरण और जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2020 है।
3	दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति	स्नातकोत्तर उत्कृष्टता में डिग्री अथवा डिप्लोमा 241 अधिसमूचित संस्थानों से	6	6.00 লাख	आवासीय छात्रों हेतु 3,000 रू. का रख रखाव भत्ता, गैर आवासीय छात्रों हेतु 1,500 रू. प्रतिमाह रख रखाव भत्ता, 2000 रू. दिव्यांगता भत्ता, पुस्तक अनुतान 5,000 रू. प्रतिवर्ष और 2,00 लाख रू. तक द्यूशन फीस प्रतिवर्ष।	

उपर्युक्त सभी छात्रवृत्ति योजनाएं ४० प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों/छात्राओं पर लागु हैं तथा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा इस आशय का दिव्यांगता कृपया छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वैबसाइट <u>www.disabilityaffairs.gov.in</u> देखें

पीआरडीएच-1104/11/5/2021/82623 दि. 04.09.20

For Sainik Finance & Industries Limited Date: 4th September, 2020 Place: New Delhi Rudra Sen Sindhu

# उत्तर रेलवे ई-निविदा सूचना ई-प्रोक्योरमेंट नोटिस नंबर 198-एस / 71 / 2019-20 / टेंबर नोटिस / टीएस निम्नलिखित रेल पथ सामान को बनाने एवं संभरण हेतु प्रमुख मुख्य अभियन्ता. उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय, ब्डौदा हाउस, नई दिल्ली द्वारा E-Procurement System निविदाओं आमंत्रित Tender No. 211-2654-2019-20-NR Due on 28.09.2020

Description उत्तर रेलवे थर्मिट पोर्टियन प्लांट लखनऊ के मानक विनिर्देश TPP/FeMo/2020 के अनुसार फेरो मोलिब्डेनम का विनिर्माण और आपूर्ति Tender Value Rs. 1.05.05.669.8 **Tender Document Cost** Rs. Nil Rs. 2, 10, 120/-Completion Period 12 Months Time of Submission of Tender Up 28.09.2020 at 14:30 IST

Date & Time of Opening of Tender On 28.09.2020 at 14:30 IST

टिप्पणी : उपरोक्त सभी इ प्रापण निविदाओं का पूर्ण विवरण निविदा प्रपन्न सहित http://ireps.gov.in and www.nr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है। पत्र सं. 196-एस / 71 / 2019-20 / निविदा सूचना / टीएस दिनांक : 04.09.2020 1928/2020

कोशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा कौशल भवन, प्लाट नं० आई.पी.-२, सेक्टर-३, माजरी चौक, पंचकूला

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2020-21 के दाखिला हेतु नोटिस हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय एवं निजी आई.टी.आई. में चलाए जा रहे इंजीनियरिंग एवं गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों में सत्र 2020-21 के दाखिले हेतु ऑनलाइन पंजीकरण विभागीय वैबसाईट www.itiharyana.gov.in पर दिनांक 07.09.2020 से आरम्भ किया जा रहा है। दाखिले से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों बारे विवरण पत्रिका, जिलेवार संस्थानों की सूची, व्यवसायवार तथा संस्थानवार उपलब्ध सीटों बारे सुचना उपरोक्त वैबसाईट पर उपलब्ध है।

 ऑनलाईन दाखिला फार्म भरने की अवधि 07.09.2020 से 22.09.2020 होगी। विभिन्न दाखिला चरणों हेतु मैरिट एवं सीट अलॉटमैंट जारी होने के पूर्ण कार्यक्रम बारे सूचना विभागीय वैबसाईट पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रार्थियों से अनुरोध है कि वह दाखिला वैबसाईट का नियमित अवलोकन करते रहें। कोविड-19 महामारी के मध्यनजर सावधानी बरतते हुए प्रार्थियों से शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण एवं स्थाई निवासी इत्यादि मूल-प्रमाण पत्रों की scanned प्रतियां तथा फीस दाखिला फार्म में ही ऑनलाईन ली/अपलोड करवाई जाएगी ताकि दाखिला कार्य हेतु प्रार्थियों को संस्थान जाने की आवश्यकता न पड़े। ट्रेडों एवं संस्थानों की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रार्थी विभाग की ITI Haryana App भी डाउनलोड कर सकते हैं।

दाखिले हेतु प्रार्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन सेवा मोबाईल नम्बरों 7888490270-74 पर प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। दाखिला फार्म भरने के इच्छुक प्रार्थियों के पास अपनी निजी ई-मेल आई.डी., मोबाईल नं. आधार नं. होना अनिवार्य है।

निदेशक

पीआरडीएच-1065/11/20/2021/82602 दि. 04.09.20

क. सं	बोर्ड / निगम / प्राधि. का नाम	कार्य / सूचना / निविदा का नाम	खुलने की तिथि वंद होने की तिथि (समय)	राशि/इंएमडी (लगभग) क.में	विभाग की वेबसाइट	नोंड्ल अधिकारी / सम्पक्ष विवरण/ई-मेल
T	एचएतवीपी जिगखाना बलव, सेक्टर-४, करनाल	हाउसकोपिंग स्टाफ का प्राथधान।	04.09.2020 18.09.2020	2 लाख	www.hsvphry.org.in	1844022888
2	प्चप्लआई आईडीसी	उद्योग विहार, फेज-! से V तथा इंडस्ट्रॉयल एस्टेट, सेक्टर-18, गुरुग्राम में (३६ माह डीऐपी सहित) बड़कों का अपग्रेडेशन।	09,09,2020 24,09,2020	609.48 लाख	https://exenders.hry.nic.in	0124-2398418 ia.gurugram@hsioc.org.in
3	एचएसआई आई डीसी	प्लॉट ने, 1083, सेक्टर-58, एचएसवीपी, फरीदाबाद में डीवाटरिंग, झाड़ियों की हटाना तथा मिट्टी भराई।	07.09.2020 17.09.2020	951 लाख	https://exenders.hry.nic.in	7015560930 (la.far.caced@hsiidc.org.in)
4	हैंफेट	हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीयल कार्पोर्शन लिमिटेड, बज नं. 15-20, सेक्टर-4, पंचकुला में सिविल कार्यों का पुनरोद्धार।	04.09.2020 15.09.2020	47000/-	www.hafed.gov.in	(0172)-2590520-26 hated@hry.nic.in
5	एचएसवीपी, मंडल सं. ॥, मंचकृला	सेक्टर 23 से 26 और 31, पंचकूला एकार्टेशन में सेक्टर 1 से 6 एमडीसी और सेक्टर 23 से 28, 31 और 32 पंचकूला एकार्टेशन (52 अदद सक्ममियल / मोनी ब्लॉक सेंट्रीफ्यूगल पर्मिंग तैद, 36 से 450 एंगरी तथा 25 से 35 एंग्पी का 12 पाह हेतु बार्विक रखस्खान) + 2 अन्य कार्य।	बंद होने की तिथि 17.09.2020	इएमडी 1.48 लाख	etenders hry.nic.in	xenhuda2@gmail.com
Б	एचएसवीपी वेंद्युत मंडल, पंचकूला	संक्टर-6, यू.इ पंचकूला एचएसवीपी कार्यालय भवन में स्थापित 8 पैसेंजर को 2 अदद लिफ्टों का वार्षिक रखरखाव। 5 वर्षों पी/एल पांच वर्ष हेतु।	खंद होने की तिथि 09.09.2020	सद दर आधार रू. 42600/- इ. 1000/- इ. 1180/-	www.hsvphry.org.in	B.18428E+11
7.	जीएमडीए गुरुग्राम	संबटर-7%ए, गुरुग्राम में एसपीआर से गांव सकटपुर तक रिसाइकल पाइप लाइन का प्रावधान व स्थापना, "स्पेश्यरस सहित 300 मिमी आई/डी तथा 600 मिमी आई/डी डीआई पाइप लाइन का प्रायमान व बिछाता, स्पेश्यर वॉल्व, एयर सॉल्व तथा सोलिस / एयर बॉल्व हेतु चेम्बर का निर्माण तथा थरट स्लॉक इत्यादि और उससे सम्बद्ध अन्य सभी कार्य ।" (3 वर्ष ली ब्रिट टेन्टारी खांचिया प्रतिन) (दितीय पुन: आमंत्रित)	04.09.2020 19.09.2020	7.18 लाख	https://www.gmda.gov.in	Xer4infra2.gmda@ gov.i

अधिक जानकारी हेतु कृपया पथारें : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in संवाद विज्ञा. सं.-13/2021/53782400000/82607 दि. 04.09.20

Q.		रेयाणा सरकार	2 1	olde	दा सूचन	ना 🎏
<b>귫</b> . 花.	विभाग का नाम	कार्य / सूचना / निविदा का नाम	खुलने की तिथि बंद होने की तिथि	राशि/इंएमडी (लगभग) रु.में	विभाग की वेबसाइट	नोडल अधिकारी ∕ सम्पर्क विवरण/ई-मेल
1	लोनिवि भ व प नारायणगढ़	जिला अम्बाला में नारायणगढ़ में न्यायिक कॉम्मलैक्स के परिसर में चैंक पोस्ट सहित पार्किंग तथा सुरक्षा चारदिचारी का निर्माण।	09.09.2020 29.09.2020	41.13 लाख	http://etenders.hry.nic.ln	Executive Engineer
2	लोनिवि भ व प कुरुक्षेत्र	पी.डी1, कुरुक्षेत्र के तहत शादीपुर सैदा रोड से एडोन (रोड आईडी 8019) तक बी टाइप सीलकोट सहित 20 मिमी मोटी प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा विशेष मरम्मत। (पुनः आमंत्रित)	02,09,2020 15.09,2020	9,30 लाख	http://etenters.hry.nic.in	01744-238066
3	लोनिवि भ व प अम्बाला	जिला कुरुक्षेत्र गांव बेहालो में राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक का निर्माण।	30.08.2020 21.09.2020	337. <b>4</b> 9 लाख	http://etenters.hry.nic.in	9697200008 pwd-eepd2-kurukshetra@hry.nic.iri
4	लोनिवि भ व प रेवाडो	जिला महेन्द्रगढ़ में पीएचसी सीएचसी में सेहलंग का अपग्रेडेशन। (62.5 केवीए डीजी सैट का प्रावधान) (पुनः आमंत्रित) – 7 अन्य कार्य।	05.09.2020 21.09.2020	1.66 करोड	http://etenters.hry.nic.in	01274-250515 / eced-rwr.pwd@hry.gov.in
5	जन स्वास्थ्य अभि, विभाग सोहना	इन्दी रोड लोहना पर स्थित एमबीबीआर टेक्नोलॉर्जा पर आधारित 6 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) ट्रॉबलरन 3 मांड की अवधि के सफलतापूर्वक के पूर्ण होने के पश्चात 5 वर्ष के औं एंड एम अथवा लागू अनुसार ट्रायल रन अवधि विस्तार सिंहत अपग्रेडेशन हेतु डीएनआईटी।	01.09.2020 21.09.2020	इँएमडी 6 लाख	http://etenters.hry.nic.in	9467743913 eesohna@phecharyana.gov.in
6	जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, पलवल	जिला पलवल गांघ जलहाका से फेक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (एफएचर्टासी) का प्रावधान (जल जीवन मिशन के तहत) 100 मिमो आई/डो डीआई पहम लाइन बिछाना, 15 मिमो जीआई पाइप क्लास-जी सहित हाउसहोल्ड टैप कनैक्शन की आपूर्ति तथा अन्य सभी सम्बद्ध कार्य ॥ 4 अन्य कार्य ॥	बंद होने की तिथि 21.09.2020	58.79 लाख	http://etenters.hry.nic.in	Executive Engineer
7	जन स्वास्थ्य मंडल सं. २, करनाल	जल जीवन मिशन ब्लॉक करनाल के तहत फंक्शनल झडसहोल्ड टैप कर्नेक्शन (एफएचटीसी) तथा वितरण पाइप लाइन के प्रावधान हेतु आकलन। "श्रेष गलियों में पाइप लाइन बिछाना, गांव केंद्रखालों में फंक्शन होल्ड और टैप कर्नेशन की आपूर्ति तथा उससे सम्बद्ध अन्य सभी कार्य - 15 अन्य कार्य।"	03.09.2020 10.09.2020	69.01 लाख	http://etenters.hry.nic.in	0184-2266004/ eepkarnal@gmail.com
8	जन स्वास्थ्य अभिगांत्रिकी विभाग अम्बाला	जिला यसुनानगर ब्लॉक छ्छरीली में गाँव लेदी में निष्क्रय ट्यबर्वल के स्थान पर 1 अंदद ट्यबर्वल का प्रावधान व स्थापना। ईएमडी राशि रु. 5600/-	03.09.2020 15.09.2020	2.80 लाख	http://etenlers.hry.nic.in	0171-2631402 eemambala@phedharyana.gov.in
9	खण्ड विकास और पंचायत कार्यालय शाहाबाद	कम्यूनिटी सेनेटरी कॉम्मलैक्स का निर्माण।	04.09.2020 10.09.2020	17.40 ਗਾਬ	http://etenters.hry.nic.in	70152-23389 bdpo.shahabad@hry.nic.in
10.	नियंत्रक, ब्रिंटिंग एवं स्टेशनरी डिपाटमेंट हरियाणा, चण्डीगढ		बंद होने की विधि 18.09.2020	8 लाख	pandsharyana@gov.in TENDER NO 2020 HRY 142253 1	6239476892 basurajender1964@gmail.com
11	नियंत्रक, ग्रिंटिंग एवं स्टेशनरी डिपार्टमेंट हरियाणा, चण्डीगढ	177	चंद होने की तिथि। 22.09.2020	2.50 লাভ	pandsharyana@gov.in TENDER NO 2020_HRY_142254_*	6239476892 basurajender1964@gmail.com

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in